

ORS DAY WORKSHOP FOR NURSES



ORS DAY AWARENESS FOR PUBLIC AT CENTRAL PARK



ORS DAY QUIZ DACH

ORS DAY QUIZ
29. JULY 2025

	TEAM PINK	TEAM RED	TEAM BLUE
Q.1	1	0	1
Q.2	1	1	1
Q.3	0	1	0
Q.4	1	0	1
Q.5	1	1	1
Q.6	1	1	1
Q.7	1	0	1
Q.8	0	0	0
Q.9	1	1	0
Q.10	1	1	2
	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>7</u>



ORS DAY POSTER

<p>बल्ड् ओ.आर. इस. डे WORLD ORS DAY 29 जुलाई 2025</p>	<p>बल्ड् ओ.आर. इस. डे WORLD ORS DAY 29 जुलाई 2025</p>
<p>INDIAN ACADEMY OF PEDIATRICS- JAIPUR, RAJASTHAN</p>	<p>INDIAN ACADEMY OF PEDIATRICS- JAIPUR, RAJASTHAN</p>
<p>(ORAL REHYDRATION SOLUTION) - PATIENT EDUCATION</p>	<p>(ORAL REHYDRATION SOLUTION) - PATIENT EDUCATION</p>
	<p>ओ.आर.एस. क्या है? ओ.आर.एस. एक सरल और जीवनरक्षक पोषिका उपयोग दस्त, उल्टी या गर्मी के कारण वाले डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) को रोकने और ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें नमक और ग्लूकोज का संतुलित मिश्रण होता है।</p>
<p>ओ.आर.एस. कैसे तैयार करें?</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।2. ओ.आर.एस. का 1 पैकेट लें (मानक WHO पैकेट)।3. पूरे पैकेट को 1 लीटर साफ, सुरक्षित पानी में मिलाएं।4. अच्छी तरह चलाएं, ताकि पाउडर पूरी तरह घुल जाए।5. तैयार घोल को 24 घंटे के भीतर उपयोग करें। बचे हुए घोल को फेंक दें।	<p>WHAT IS ORS? ORS is a simple, life-saving solution used to prevent and treat dehydration caused by diarrhea, vomiting, or fever. It contains a balanced mixture of sodium and glucose.</p>
<p>ओ.आर.एस. क्या है?</p>	<p>How to prepare ORS?</p>
<p>दस्त या उल्टी होने ही ओ.आर.एस. देना शुरू करें। सालारान या सामान्य भोजन जारी रखें। डिहाइड्रेशन के किसी भी संकेत (मुख सूखना, धंसी हुई आंखें, कम पेशाब, ज्यादा प्यास लगना) पर ओ.आर.एस. दें।</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wash hands thoroughly with soap and water2. Take 1 packet of ORS (standard WHO packet).3. Mix the entire contents in 1 liter of clean, safe water4. Stir well until the powder dissolves completely. <p>Use the prepared solution within 24 hours; discard any leftover solution that.</p>
<p>ओ.आर.एस. किसने बना में है?</p>	<p>When to give ORS?</p>
<ol style="list-style-type: none">1. 2 वर्ष से छोटे बच्चे: 50-100 मि.ली. (¼ से ½ कप) प्रत्येक दस्त के बाद।2. 2 से 10 वर्ष के बच्चे: 100-200 मि.ली. (¼ से 1 कप) प्रत्येक दस्त के बाद।3. बड़े बच्चे और वयस्क: हर दस्त के बाद जितना चाहें उतना।	<p>Give ORS at the start of diarrhea or vomiting. Continue breastfeeding or regular feeding along with ORS. Give ORS at any sign of dehydration (dry mouth, sunken eyes, little urine, excessive thirst).</p>
<p>IAP ki BAAT COMMUNITY ke SAATH</p>	<p>How much ORS to give?</p>
<p>IAP ki BAAT COMMUNITY ke SAATH</p>	<p>Children below 2 years: 50-100 ml (¼ to ½ cup) after each loose stool Children 2-10 years: 100-200 ml (¼ to 1 cup) after each loose stool Older children & adults: As much as they want after each loose stool (urine, excessive thirst).</p>

ORS CAMPAIGN LAUNCHED BBY LOCAL LEGISLATOR AND WARD ADHYAKSH




ORS DAY ACTIVITIES AT KANWATIYA HOSPITAL, GANGAURI HOSPITAL, DACH, MANSAROVAR PARK, JAWAHARCIRCLE PARK ZENANA HOSPITAL



ORS DAY AWARENESS FOR PUBLIC AT GANESH PARK- JAIPUR



ORS DAY AWARENESS FOR PUBLIC AND NURSING STAFF AT VARIOUS HOSPITAL



ORS DAY AWARENESS FOR PUBLIC AT NEHRU BAL UDIYAN

